


Covid-19 जैसी विशेष परिस्थिति में बिहार के बच्चों को सीखने में सहयोग हेतु विकसित वर्कशीट

तुम्हारी दिनचर्या को (Bar diagram) दण्डालेख से दिखाओ और उसका विश्लेषण करो।

सवेरे उठने से लेकर रात में सोने तक की क्रियाओं में आप कितना समय लगाते हैं, इसका निरूपण दण्डालेख से करें। एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।



उदाहरण के रूप में यह दण्डालेख 14 वर्ष की मयूरी का है। ऊपर के दण्डालेख से हमने जाना कि 14 वर्ष की मयूरी दिन में 7 घंटे सोती है। बाकि समय वह क्या करती होगी? सोचें और खाली जगहों पर लिखकर दण्डालेख के साथ दिखाएं।

**अब, आप अपनी दिनचर्या पर आधारित दण्डालेख बनाएं**

अपने दण्डालेख का विश्लेषण कर खुद की दिनचर्या पर एक टिप्पणी करें।